



Australian Government

Department of Home Affairs

# ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करना और ऑस्ट्रेलिया से प्रस्थान करना

## नवीनतम अपडेट

6 जुलाई 2022 से ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश और यहाँ से प्रस्थान करने का तरीका बदल गया है। सभी यात्रियों को पता होना चाहिए कि:

- ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने वाले लोगों को टीकाकरण स्थिति का प्रमाण उपलब्ध कराने की आवश्यकता **नहीं है**
- ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने वाले लोगों को डिजिटल यात्री घोषणा या समुद्री यात्रा घोषणा को पूरा करने की आवश्यकता **नहीं है**
- ऑस्ट्रेलिया से प्रस्थान करने वाले लोगों को टीकाकरण स्थिति का प्रमाण उपलब्ध कराने के लिए **नहीं** कहा जाएगा
- गैर-टीकाकृत वीजाधारकों को ऑस्ट्रेलिया आने के लिए यात्रा अपवाद की आवश्यकता **नहीं है**
- ऑस्ट्रेलिया आने वाली उड़ानों में मास्क पहनना अभी भी आवश्यक है।

यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि एयरलाइनों, समुद्री जहाज ऑपरेटरों और अन्य देशों की विशिष्ट आवश्यकताएँ हो सकती हैं, जिनका अनुपालन करना यात्रियों के लिए अनिवार्य हो सकता है।

## ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करना और ऑस्ट्रेलिया से प्रस्थान करना

घरेलू मामले विभाग (Department of Home Affairs) और ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल (Australian Border Force) ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने या यहाँ से प्रस्थान करने के इच्छुक लोगों को सलाह प्रदान करते हैं।

और अधिक जानकारी के लिए देखें:

- [ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करना](#)
- [ऑस्ट्रेलिया से प्रस्थान करने से पहले और उसके बाद](#)
- [सीमा पार करना](#)
- [यात्रा दस्तावेज](#)

जिन लोगों के लिए वीज़ा आवश्यक है, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने से पहले उनका वीज़ा जारी कर दिया जाए। ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा आवश्यकताओं की जाँच करने के लिए देखें: [वीज़ा विकल्प खोजें](#)

ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल (Australian Border Force) [समुद्र के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने वाले या यहाँ से प्रस्थान करने वाले](#) लोगों को आगे की सलाह प्रदान करता है।

विदेश यात्रा की योजना बना रहे ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को [स्मार्टट्रैवलर](#) पर जाकर वर्तमान यात्रा सलाह देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

स्वास्थ्य विभाग (Department of Health) [अंतरराष्ट्रीय यात्रा और कोविड-19](#) के बारे में स्वास्थ्य सलाह प्रदान करता है।

## राज्य और राज्य-क्षेत्र की जानकारी

ऑस्ट्रेलिया के प्रत्येक राज्य और राज्य-क्षेत्र की अपनी प्रवेश व्यवस्था और आवश्यकताएँ हैं, जिनका आपको पालन करना होगा। यदि आप ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने की योजना बना रहे/रही हैं, तो आपको उस राज्य या राज्य-क्षेत्र की आवश्यकताओं की जाँच करनी चाहिए जहाँ आप यात्रा करने जा रहे/रही हैं। आवश्यकताओं में ऑस्ट्रेलिया पहुँचने के बाद कोविड-19 जाँच अथवा कुछ स्थानों पर जाने या कुछ व्यवसायों में काम करने के लिए टीकाकरण आवश्यकताएँ शामिल हो सकती हैं।

और अधिक जानकारी के लिए [राज्य और राज्य-क्षेत्र में आगमन की आवश्यकताएँ](#) देखें।

## ऑस्ट्रेलिया का टीकाकरण कार्यक्रम

ऑस्ट्रेलिया में कोई भी व्यक्ति निःशुल्क कोविड-19 टीका प्राप्त कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को ऑस्ट्रेलिया के टीकाकरण कार्यक्रम का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

और अधिक जानकारी के लिए [कोविड-19 टीके](#) देखें।

## वीज़ा रियायतें और रिफंड

कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान पड़े प्रभावों के कारण कुछ वीज़ा श्रेणियों में कई बदलाव किए गए थे, जिनमें रियायत अवधियाँ, शुल्कमाफी और वीज़ा रिफंड शुरू करना शामिल था।

और अधिक जानकारी के लिए [कोविड-19 वीज़ा जानकारी](#) देखें।